



...the name you can BANK upon!



Share Department, Board & Coordination Division, HO Plot No.4 Sector 10, Dwarka,  
New Delhi-110075 Tel No. : 011-28044857, E-mail: [hosd@pnb.co.in](mailto:hosd@pnb.co.in)

<b>Scrip Code : PNB</b>	<b>Scrip Code : 532461</b>
National Stock Exchange of India Limited "Exchange Plaza" Bandra – Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai – 400 051	BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001

Date: 06.02.2024

Dear Sir(s),

### Reg: Newspaper Publication- Notice of Extraordinary General Meeting

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed a copy of the Notice of Extraordinary General Meeting of the Bank published in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) on 06.02.2024.

The above information is being submitted in compliance of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

Thanking you  
Yours faithfully,

(Ekta Pasricha)  
Company Secretary



Encl: A/a

[pnbindia.in](http://pnbindia.in)

T: 011 28075000, 28045000

**पंजाब नैशनल बैंक** **punjab national bank**

कॉर्पोरेट कार्यालय: प्लॉट सं.4, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075  
Corp. Office: Plot No. 4, Sector - 10, Dwarka, New Delhi 110075 India



**पंजाब नैशनल बैंक**  
...भरोसे का प्रतीक !




**punjab national bank**  
...the name you can BANK upon !

Share Department, Board & Coordination Division, HO Plot No.4 Sector 10, Dwarka,  
New Delhi-110075 Tel No. : 011-28044857, E-mail: [hosd@pnb.co.in](mailto:hosd@pnb.co.in)

FINANCIAL EXPRESS

FEBRUARY 6, 2024

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ  
...सर्वोत्तम का उत्तर !punjab national bank  
...the name you can BANK upon !

Head Office: Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi – 110 075  
(Email [hosd@pnb.co.in](mailto:hosd@pnb.co.in))

**Notice of the EGM/ Cut-off Date**

Pursuant to the Punjab National Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000 and other applicable laws/guidelines, Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting (EGM) of the Shareholders of the Bank is scheduled to be held on **Tuesday 05<sup>th</sup> March, 2024 at 11.00 a.m.** through Video Conferencing (VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM) in compliance of the applicable provisions of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 read with General Circular No. 09/2023 dated 25<sup>th</sup> September, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 07<sup>th</sup> October, 2023 read with SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 05<sup>th</sup> January, 2023 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13<sup>th</sup> May, 2022, issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), without the physical presence of shareholders at a common venue, to transact the following business:

- a) To consider and approve raising of equity capital for an amount aggregating upto ₹7500 crore (including share premium, if any) in one or more tranches during FY 2024-25 through Qualified Institutions Placement (QIP)/Follow-on Public Offer (FPO) or any other permitted mode or a combination thereof in such manner and on such terms and conditions as may be deemed appropriate, in accordance with the applicable Acts/Regulations/Guidelines and subject to receipt of all requisite approvals and the shareholding of Govt. of India not falling below 52%, by way of *Special Resolution*.
- b) To consider and approve the appointment of Director under Section 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, in accordance with the provisions of Regulation 17(1C) of the SEBI (LODR) Regulations, by way of *Ordinary Resolution*.

**Notes:**

1. The detailed Notice of the EGM will be sent *only* through email to all those Shareholders whose email addresses are registered with the Bank/Depository Participant (DP), in accordance with the aforementioned Circular(s), in due course.
2. The Notice of the EGM will also be made available on the website of the Bank i.e. [www.pnbindia.in](http://www.pnbindia.in), and the websites of the Stock Exchanges i.e. [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)
3. In compliance of Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and the provisions of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, read with MCA Circulars, the Bank is providing its shareholders the facility to exercise their right to vote in respect of the business to be transacted at the EGM by electronic means (remote e-voting and e-voting during the EGM) through the e-voting platform provided by NSDL.
4. **The Cut-off date for determining the eligibility of shareholders for e-voting in respect of the above Agenda Items shall be Tuesday, 27<sup>th</sup> February, 2024.**
5. Only those persons whose names are recorded in the Register of Shareholders/Beneficial Owners (maintained by the Depositories) as on the aforesaid cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/e-voting on the above agenda item(s).
6. As per Regulation 40 of SEBI Listing Regulations, as amended, all requests for transfer of securities including transmission and transposition requests shall be processed only in dematerialized form. In view of the same and to eliminate all risks associated with physical shares and avail various benefits of dematerialisation, Shareholders are advised to dematerialise the shares held by them in physical form. Shareholders can contact the Bank or Bank's RTA for assistance in this regard.
7. Also, those Shareholders who are holding shares in demat form and have not registered/updated their mobile numbers and email ids are requested to register the same through their Depository Participants.
8. For all information relating to the EGM, Shareholders are requested to visit Bank's website i.e. <https://www.pnbindia.in/AGM-EGM.html>

**By Order of the Board of Directors  
For Punjab National Bank**

Place: New Delhi	(Ekta Pasricha)
Date: 05.02.2024	Company Secretary

जनसत्ता

6 फरवरी, 2024

**पंजाब नैशनल बैंक**  **punjab national bank**  
...बढ़ते हैं और / ...the more you can BANK upon!

प्रधान कार्यालय: प्लॉट नं. 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110 075  
(ई-मेल: [hosd@pnb-co-in](mailto:hosd@pnb-co-in))

**ईजीएम/कट-ऑफ तिथि की सूचना**

पंजाब नैशनल बैंक (शेयर एवं बंड्स) विनियम, 2000 तथा अन्य लागू विधि/दिशानिर्देशों के अनुसार, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 के साथ पठित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपत्र सं. सेबी/एफओ/सीएफडी/सीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांक 05 जनवरी, 2023 तथा सेबी/एफओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 के साथ पठित सेबी/एफओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/167 दिनांक 07 अक्टूबर, 2023 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में, आम स्वतंत्र पर शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति के बिना, मंगलवार 05 मार्च, 2024 को प्रातः 11.00 बजे, बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑनलाइन-विजुअल सुविधा (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे :

क) अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थान (स्पूआईपी)/अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ) के माध्यम से या किसी अन्य अनुमत मोड या उसके संयोजन को इस प्रकार से और ऐसे निबंधनों एवं शर्तों पर, जो लागू अधिनियमों/विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार उचित समझे जाएं और सभी अपेक्षित अनुमोदन के अधीन तथा भारत सरकार की शेयरधारिता प्रतिशत को 52% से कम किए बिना वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान एक या अधिक किस्तों में ₹7500 करोड़ (शेयर प्रीमियम सहित, यदि कोई हो) तक की किसी समग्र राशि के लिए इक्विटी पूंजी जुटाने पर विशेष संकल्प के माध्यम से विचार करना और स्वीकृति देना।

ख) सामान्य संकल्प के माध्यम से बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ए) के अंतर्गत सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियमन 17 (1 सी) के प्रावधानों के अनुसार, निदेशक की नियुक्ति का अनुमोदन।

**टिप्पणियां:**

- ईजीएम की विस्तृत सूचना क्लैबल उन सभी शेयरधारकों को ई-मेल के माध्यम से भेजी जाएगी जिनके ई-मेल के पते उचित समय पर उपयुक्त परिपत्र(ओं) के अनुसार, बैंक/डिजिटल पोर्टल/सिस्टम (सीपी) के साथ पंजीकृत हैं।
- ईजीएम की सूचना बैंक की वेबसाइट अर्थात् [www.pnbindia.in](http://www.pnbindia.in) और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात् [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) तथा [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।
- सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 और एमसीए परिपत्रों के साथ पठित, कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) विनियम, 2014 यथासंशोधित के नियम 20 के प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक अपने शेयरधारकों को एनएसडीएल द्वारा प्रदत्त ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक साधनों (ईजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग एवं ई-वोटिंग) द्वारा ईजीएम में किए जाने वाले कार्य के संबंध में उनके वोट के अधिकार का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है।
- उपयुक्त कार्यसूची मर्दानों के संबंध में ई-वोटिंग के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि मंगलवार, 27 फरवरी, 2024 होगी।
- केवल वे व्यक्ति जिनके नाम उपयुक्त कट-ऑफ तिथि तक शेयरधारकों/लाभकारी स्वामियों (डिजिटल) द्वारा अनुरक्षित) के रजिस्टर में प्रविष्ट हैं, उपयुक्त कार्यसूची मर्दानों पर रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के पात्र होंगे।
- सेबी सिरिस्टिंग विनियमों के विनियम 40 के अनुसार, यथासंशोधित, प्रेषण एवं स्थानांतरण अनुरोधों सहित प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के सभी अनुरोधों को केवल डीमटेरियलाइज्ड रूप में प्रसंस्कारित किया जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए और भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों का हानन करने और डीमटेरियलाइजेशन के विभिन्न लाभों का उपयोग करने के लिए, शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे भौतिक रूप में उनके द्वारा धारित शेयरों को डीमटेरियलाइज करें। इस संबंध में सहायता के लिए बैंक या बैंक के आरटीए से संपर्क किया जा सकता है।
- साथ ही, वे शेयरधारक जो डीमटे फॉर्म में शेयर रख रहे हैं तथा उन्होंने अपने मोबाइल नंबर तथा ई-मेल आईडी पंजीकृत/अद्यतन नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने निष्पेक्षागार भागीदारों के माध्यम से इसे पंजीकृत करा लें।
- ईजीएम से संबंधित समस्त सूचनाओं के लिए, शेयरधारकों से बैंक की वेबसाइट अर्थात् <https://www.pnbindia.in/AGM-EGM.html> पर जाने का अनुरोध किया जाता है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार  
कृते पंजाब नैशनल बैंक

स्थान: नई दिल्ली (एकता पसरीबा)  
दिनांक: 05.02.2024 कंपनी सचिव